

## जैव उपचार

### जैव उपचार (Bioremediation)

- सूक्ष्मजीव, जीवाणु, कवक आदि का प्रयोग कर, पर्यावरण संदूषकों को कम विद्युत पदार्थों में अपवर्तित करना जैव उपचार कहलाता है। इसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषकों के हानिकारक प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। यह जैव सामाजिक चक्र के सिद्धांत के माध्यम से कार्य करता है। जैवोपचार मृदा, सतही जल, भूमिगत जल आदि को साफ करने एवं पारिस्थितिकी तत्र की पुनः स्थापना में उपयोगी होता है।

परिचय

बायोरिमेडिएशन तकनीक

जैवोपचार तकनीक

#### आंध्रल जैपर

- यह अनिवार्य रूप से पाँच भिन्न बैक्टीरियल स्ट्रेस का एक मिश्रण है जो एक बाहक सामग्री (पाउडर ऑर्जेनोब) के साथ स्थिर और मिश्रित होता है।

ये कच्चे तेल और तैलीय गाद में ऐन्जूट हाइड्रोकार्बन घौणिकों को खा लेते हैं और उन्हें हानिरहित छऱ एवं जल में परिवर्तित कर देते हैं।

#### आंध्रलिंगोरस-8

- यह एक टैब है जो आंध्रल जैपर से भिन्न है। इसमें एक अतिरिक्त बैक्टीरियल स्ट्रेन है जो पहले को उच्च-स्लफर अवयव युक्त गाद और कच्चे तेल के किन्हें अधिक प्रभावी बनाता है।

आंध्रल जैपर और आंध्रलिंगोरस- दोनों स्व-स्थाने प्रयोग किये जा सकते हैं, जो प्रभावित स्थान से बड़ी मात्रा में द्रूषित करके को स्थानान्तरित करने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है, इस प्रक्रिया में पर्यावरण पर और अधिक संकट उत्पन्न होने का खतरा होता है।

- बायो बैटिंग (Bioventing):** इस प्रक्रिया में कूप के माध्यम से वायु एवं पोषक तत्वों को संदूषित मृदा तक पहुँचाया जाता है ताकि स्थानीय जीवाणुओं की वृद्धि को प्रेरित किया जा सके। वह ऐसी रिश्ति में किया जाता है जब संदूषक सतह से काष्ठी गहराई में स्थित होते हैं।
- जैव छिङ्काब (Biosparging):** भूमिगत जल में ऑक्सीजन की सांकेतिक बढ़ाने के लिये वायु को दाब द्वारा भूमिगत जल सतर से नीचे तक प्रवेश करवाया जाता है ताकि संदूषकों के जैव अपघटन को बढ़ाया जा सके।
- बायोस्टिमुलेशन (Biostimulation):** इस प्रक्रिया में पोषक तत्वों (नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉर्मिकोरस) को कूप (Injection Well) के माध्यम से प्रदूषित मृदा में भेजा जाता है, इससे मृदा में उपर्युक्त सूक्ष्म जीवों (मूल प्रदूषकों को समाप्त करने वाले) में वृद्धि हो जाती है। इस प्रक्रिया में अधिक समय लगता है।
- जैव संवर्द्धन (Bioaugmentation):** अपघटन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिये किसी अन्य स्थान से सूक्ष्म जीवों को लाकर संदूषित स्थान पर उनकी मात्रा बढ़ाना जैव संवर्द्धन कहलाता है। यह प्रक्रिया बायोस्टिमुलेशन से बेहतर तकनीक है।
- बायोरिएक्टर (Bio Reactors):** इसमें एक नियन्त्रित तंत्र के माध्यम से संदूषित ऊपर पर्यावरण (मृदा, अवसाद आदि) एवं जल का उपचार किया जाता है।